



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1945 (श०)

(सं० पटना 05) पटना, बुधवार, 3 जनवरी 2024

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

29 दिसम्बर 2023

सं. 12/प०-विविध-08-93/2023 1791(12)—भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (संशोधन) अधिनियम 2021 की धारा 3(2C) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, 25 मार्च 2021 को भारत के राजपत्र में, प्रत्येक राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा लागू हो, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। तदनुसार, इस संबंध में इस विषय से संबंधित अबतक की सभी पिछली अधिसूचनाओं और आदेशों के अधिक्रमण में, राज्यपाल एतद्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यक्तियों को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करते हैं।

क्रमसं०	संस्थान	क्र.सं.	चिकित्सीय बोर्ड के सदस्य का नाम, पद एवं विशेषज्ञता
1	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर	1	डॉ० उदय नारायण सिंह, अधीक्षक
		2	डॉ० सचिन कुमार सिंह, HoD, रेडियोलॉजिस्ट
		3	डॉ० अनुपमा सिन्हा HoD, (प्रसूति रोग विशेषज्ञ)
		4	डॉ० राजीव रंजन, सीनियर रेसीडेन्ट, (शिशु रोग विशेषज्ञ)
2	दरभंगा मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, दरभंगा	5	डॉ० अल्का झा, अधीक्षक
		6	डॉ० इस्फान अहमद, सह-प्राध्यापक, रेडियोलॉजिस्ट
		7	डॉ० पूजासेठ, सह-प्राध्यापक, (प्रसूति रोग विशेषज्ञ)
		8	डॉ० अमित कुमार, सह-प्राध्यापक, (शिशु रोग विशेषज्ञ)
3	अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया	9	डॉ० प्र० श्री विनोद शंकर सिंह, अधीक्षक
		10	डॉ० धनन्जय कुमार विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजिस्ट
		11	डॉ० लता शुक्ला, विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
		12	डॉ० बी०बी० सिंह, विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विशेषज्ञ

क्रमसं०	संस्थान	क्र.सं.	चिकित्सीय बोर्ड के सदस्य का नाम, पद एवं विशेषज्ञता
4	श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	13	डॉ० दीपक कुमार, अधीक्षक
		14	डॉ० रोहित कुमार, सीनियर रेसीडेन्ट, रेडियोलॉजिस्ट
		15	डॉ० प्रीति सिंह, सह-प्राध्यापक, (स्त्री एवं प्रसूति)
		16	डॉ० जे० पी० मंडल, सह-प्राध्यापक, (शिशु रोग)
5	भगवान महावीर इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, पावापुरी (नालन्दा)	17	डॉ० अरुण कुमार सिंह, अधीक्षक
		18	डॉ० निरु सिंह जनेश्वर, सीनियर रेसीडेन्ट, रेडियोलॉजिस्ट
		19	डॉ० नीता शर्मा, वरीय चि० पदाधिकारी, स्त्री एवं प्रसूतिरोग
		20	डॉ० धीरज कुमार, सह-प्राध्यापक, (शिशु रोग)
6	सदर हॉस्पिटल (गुरु गोविन्द सिंह हॉस्पिटल), पटना	21	डॉ० राजेश रंजन चौधरी, उपाधीक्षक
		22	डॉ० किरण कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट
		23	डॉ० मेहर अफसान मेहदी, वरीय चि० पदाधिकारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग
		24	डॉ० उमा शंकर सिंह, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी, शिशुरोग
7	पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना	25	डॉ० ए० के० झा, उपाधीक्षक
		26	डॉ० विजय कुमार, सह-प्राध्यापक, रेडियोलॉजिस्ट
		27	डॉ० गीता सिन्हा, विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग
		28	डॉ० भुपेन्द्र नारायण, विभागाध्यक्ष, शिशु रोग
8	नालन्दा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना	29	डॉ० नूतन नारायण, सह-प्राध्यापक, स्त्री एवं प्रसूति रोग
		30	डॉ० विनय कुमार, सह-प्राध्यापक, शिशु रोग
		31	डॉ० प्रणव कुमार, सह-प्राध्यापक, रेडियोलॉजिस्ट
		32	डॉ० रितु कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग
9	गवर्नमेन्ट मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पूर्णियाँ	33	डॉ० वरुण कुमार ठाकुर, अधीक्षक
		34	डॉ० जन मेहता, सीनियर रेसीडेन्ट, रेडियोलॉजिस्ट
		35	डॉ० रिचा झा, सह-प्राध्यापक, गायनोक्लोजिस्ट
		36	डॉ० प्रेम प्रकाश, सह-प्राध्यापक, शिशु रोग
10	गवर्नमेन्ट मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बेतिया	37	डॉ० राजेश कुमार, अधीक्षक / उपाधीक्षक
		38	डॉ० प्रियंका वर्णवाल, सीनियर रेसीडेन्ट, रेडियोलॉजिस्ट
		39	सह-प्राध्यापक, स्त्री एवं प्रसूति रोग
		40	डॉ० कुमार सौरभ, सह-प्राध्यापक, शिशु रोग
11	सदर हॉस्पिटल, सारण	41	डॉ० रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, सी०डी०ओ०
		42	डॉ० अनिल कुमार पाण्डेय, वरीय चि० पदाधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट
		43	डॉ० आकृति प्रसाद, वरीय चि० पदाधिकारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग
		44	डॉ० ब्रजेश कुमार, वरीय चि० पदाधिकारी, (शिशु रोग)
12	सदर हॉस्पिटल, शेखपुरा	45	डॉ० अशोक कुमार, सिविल सर्जन
		46	डॉ० पवन कुमार, वरीय चि० पदाधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट
		47	डॉ० सुनीता कुमारी, सी०डी०ओ० (स्त्री एवं प्रसूति रोग)
		48	डॉ० साजिद हुसैन, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी
13	सदर हॉस्पिटल, शिवहर	49	डॉ० सतीश चन्द्रा बोस, वरीय चि० पदाधिकारी, (शिशु रोग)
		50	डॉ० शैलेन्द्र कुमार झा, सिविल सर्जन
		51	डॉ० अंजना प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, (स्त्री एवं प्रसूति रोग)
		52	डॉ० दिलीप कुमार, वरीय चि० पदाधिकारी, (शिशु रोग)
14	सदर हॉस्पिटल, बाँका	53	डॉ० दीपक कुमार, वरीय चि० पदाधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट
		58	डॉ० लक्ष्मण पंडित, उपाधीक्षक
		59	डॉ० शैलेन्द्र कुमार, चि० पदाधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट
		60	डॉ० रश्मि सिन्हा, वरीय चि० पदाधिकारी, (स्त्री एवं प्रसूति रोग)
15	सदर हॉस्पिटल, बेगुसराय	61	डॉ० कुमार अमिश, चि० पदाधिकारी, शिशुरोग
		62	डॉ० बी० के० शर्मा, उपाधीक्षक
		63	डॉ० पुनम कुमारी, चि० पदाधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट
		64	डॉ० प्राची, वरीय चि० पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग)
		65	डॉ० प्रवीण, वरीय चि० पदाधिकारी (शिशु रोग)

क्रमसं०	संस्थान	क्र.सं.	चिकित्सीय बोर्ड के सदस्य का नाम, पद एवं विशेषज्ञता
16	सदर हॉस्पिटल, भागलपुर	66	डॉ० अंजना कुमारी, अपर मुख्य चि० पदाधिकारी
		67	डॉ० पियुष कुमार, वरीय चि० पदाधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट
		68	डॉ० रश्मि कुमारी, वरीय चि० पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग)
		69	डॉ० पी.के. यादव, वरीय चि० पदाधिकारी, शिशुरोग
17	सदर हॉस्पिटल, नालन्दा	70	डॉ० कुमकुम, उपाधीक्षक
		71	डॉ० गीतांजली, वरीय चि० पदाधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट
		72	डॉ० अनुपमा कुमारी, वरीय चि० पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग)
		73	डॉ० अन्जय कुमार, वरीय चि० पदाधिकारी, शिशु रोग
		74	डॉ० प्रशान्त कुमार, चि० पदाधिकारी, निश्चेतक
18	सदर हॉस्पिटल, जमुई	75	डॉ० अरविन्द, अपर मुख्य चि० पदाधिकारी
		76	डॉ० नम्रतासिन्हा, वरीय चि० पदाधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट
		77	डॉ० श्वेता सिंह, सलाहकार, स्त्री एवं प्रसूति रोग
		78	डॉ० अमित रंजन, चि० पदाधिकारी, शिशुरोग

उल्लेखनीय है कि जिन जन पदों के सदर अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट में से किसी एक की अनुपलब्धता के कारण मेडिकल बोर्ड का गठन संभव नहीं है, उस संस्थान को निकटतम मेडिकल कॉलेज में गठित मौजूदा मेडिकल बोर्ड के साथ लिंक किया जाता है, उन संस्थानों का विवरण नीचे दिया गया है

क्रमसं०	जिला/संस्थान का नाम	मेडिकल बोर्ड गठित नहीं होने का कारण	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम जहाँ पर मेडिकल बोर्ड गठित है।
1	सदर अस्पताल, अररिया	रेडियोलॉजिस्ट	जी०एम०सी०, पूर्णियाँ
2	सदर अस्पताल, अरवल	रेडियोलॉजिस्ट	ए०एन०एम०सी०एच०, गया
3	सदर अस्पताल, औरंगाबाद	रेडियोलॉजिस्ट	ए०एन०एम०सी०एच०, गया
4	सदर अस्पताल, भोजपुर	रेडियोलॉजिस्ट	पी०एम०सी०एच०, पटना
5	सदर अस्पताल, बक्सर	रेडियोलॉजिस्ट	पी०एम०सी०एच०, पटना
6	सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण	रेडियोलॉजिस्ट	जी०एम०सी०एच०, बेतिया
7	सदर अस्पताल, गया	रेडियोलॉजिस्ट	ए०एन०एम०सी०एच०, गया
8	सदर अस्पताल, गोपालगंज	रेडियोलॉजिस्ट	जी०एम०सी०एच०, बेतिया
9	सदर अस्पताल, जहानाबाद	रेडियोलॉजिस्ट	ए०एन०एम०सी०एच०, गया
10	सदर अस्पताल, कैमूर	रेडियोलॉजिस्ट	एन०एम०सी०एच०, पटना
11	सदर अस्पताल, कटिहार	रेडियोलॉजिस्ट	जी०एम०सी०, पूर्णियाँ
12	सदर अस्पताल, खगड़िया	रेडियोलॉजिस्ट	जे०एल०एन०एम०सी०एच०, भागलपुर
13	सदर अस्पताल, किशनगंज	रेडियोलॉजिस्ट	जी०एम०सी०, पूर्णियाँ
14	सदर अस्पताल, लखीसराय	रेडियोलॉजिस्ट	वी०एम०आई०एम०एस०, पावापुरीनालंदा
15	सदर अस्पताल, मधेपुरा	रेडियोलॉजिस्ट	जी०एम०सी०, पूर्णियाँ
16	सदर अस्पताल, मधुबनी	रेडियोलॉजिस्ट	डी०एम०सी०एच०, दरभंगा
17	सदर अस्पताल, मुंगेर	रेडियोलॉजिस्ट	जे०एल०एन०एम०सी०एच०, भागलपुर
18	सदर अस्पताल, नवादा	रेडियोलॉजिस्ट	ए०एन०एम०सी०एच०, गया
19	सदर अस्पताल, रोहतास	रेडियोलॉजिस्ट	एन०एम०सी०एच०, पटना

क्रमसं०	जिला/संस्थान का नाम	मेडिकल बोर्ड गठित नहीं होने का कारण	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम जहाँ पर मेडिकल बोर्ड गठित है।
20	सदर अस्पताल, सहरसा	रेडियोलॉजिस्ट	डी०एम०सी०एच०, दरभंगा
21	सदर अस्पताल, समस्तीपुर	रेडियोलॉजिस्ट	डी०एम०सी०एच०, दरभंगा
22	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी	रेडियोलॉजिस्ट	एस०के०एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर
23	सदर अस्पताल, सीवान	रेडियोलॉजिस्ट	एस०के०एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर
24	सदर अस्पताल, सुपौल	स्त्री एवं प्रसूतिरोग	डी०एम०सी०एच०, दरभंगा
25	सदर हॉस्पिटल, वैशाली	रेडियोलॉजिस्ट	एन०एम०सी०एच०, पटना
26	सदर हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर	रेडियोलॉजिस्ट	एस०के०एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर

विदित हो कि यदि किसी सदस्य के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है तो उसे चिकित्सा महाविद्यालय में अधीक्षक एवं जिला अस्पताल में सिविल सर्जन द्वारा मौजूदा संकाय /कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों से मनोनयन कर भरा जायेगा।

उल्लेखनीय है कि जिन जिलों के सदर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका है और स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/ या किसी अन्य कारण से स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट में से किसी का पद रिक्त हो जाता है एवं प्रतिस्थापन या रिक्त पद के स्थान पर नई नियुक्ति में विलंब या लंबे समय तक नई नियुक्ति ही नहीं की जाती है,

तो ऐसी स्थिति में सदर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज को मौजूदा मेडिकल बोर्ड के साथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के उद्देश्य से निकटतम मेडिकल कॉलेज के साथ टैग किया जाता है, जो निम्नवत हैं

क्रम सं०	जिला/संस्थान का नाम	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम जहाँ पर मेडिकल बोर्ड गठित है।
1	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर	गवर्नमेन्ट मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पूर्णियाँ
2	दरभंगा मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, दरभंगा	श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर
3	अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया	पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना
4	श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	दरभंगा मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, दरभंगा
5	भगवान महावीर इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, पावापुरी (नालन्दा)	नालन्दा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना
6	सदर हॉस्पिटल (गुरु गोविन्द सिंह हॉस्पिटल), पटना	पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना
7	पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना	नालन्दा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना
8	नालन्दा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना	पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना
9	गवर्नमेन्ट मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पूर्णियाँ	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर
10	गवर्नमेन्ट मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बेतिया	श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर
11	सदर हॉस्पिटल, सारण	नालन्दा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना
12	सदर हॉस्पिटल, शेखपुरा	भगवान महावीर इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, पावापुरी (नालन्दा)
13	सदर हॉस्पिटल, शिवहर	श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर
14	सदर हॉस्पिटल, बाँका	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर
15	सदर हॉस्पिटल, बेगुसराय	पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना

क्रम सं०	जिला/संस्थान का नाम	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम जहाँ पर मेडिकल बोर्ड गठित है।
16	सदर हॉस्पिटल, भागलपुर	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर
17	सदर हॉस्पिटल, नालन्दा	भगवान महावीर इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, पावापुरी (नालन्दा)
18	सदर हॉस्पिटल, जमुई	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर

‘3क. चिकित्साबोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य – धारा 3 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) चिकित्साबोर्ड की शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

- (i) उक्त धारा की उपधारा (2ख) के अधीन, केवल सम्यक विचार करने के पश्चात् और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि गर्भ की उस अवस्था में स्त्री के लिए प्रक्रिया सुरक्षित होगी तथा क्या भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिस से वह गंभीर रूप से अक्षम हो, चौबीस सप्ताह की गर्भावधि के आगे गर्भ समापन अनुज्ञात करना या अस्वीकार करना;
- (ii) बोर्ड में अन्य विशेषज्ञों से सहयोग लेना तथा गर्भ के समापन का विनिश्चय करने के लिए, यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त अन्वेषणों के लिए कहना;

(ख) चिकित्सा बोर्ड की कृत्य निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

- (i) स्त्री और उसकी रिपोर्टों का परीक्षण करना, जो धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए पहुंचे;
- (ii) धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए आवेदन प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर गर्भ के समापन या असमापन के आवेदन को अस्वीकृत करने के संबंध में प्ररूप घ में चिकित्सा बोर्ड की राय प्रदान करना;
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि समापन प्रक्रिया की जब चिकित्सा बोर्ड द्वारा सलाह दी जाए, तो वह धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए आवेदन की तारीख से पांच दिनों के भीतर समुचित परामर्श के साथ सभी सुरक्षा पूर्ववधानियों के साथ की जाए।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप, राज्य सरकार ने कानून के शासना देश के अनुसार एमटीपी के प्रलेखन के लिए अद्यतन प्रारूपों, यानी फॉर्म- I, फॉर्म- II और फॉर्म- III (प्रतिलिपि संलग्न) को अधिसूचित किया है।

यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक वैध रहेगी प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
आनन्द प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

प्ररूप 1

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की राय का प्ररूप

(बीस सप्ताह तक गर्भावस्था की अवधि के लिए)

[विनियम 3 देखिए]

मैं
(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम और अर्हताएं स्पष्ट अक्षरों में)

.....
(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पूरा पता)

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी राय में, जो सद्भावपूर्वक बनाई गयी है।

.....
(गर्भवती स्त्री का पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

निवासी
(स्त्री का पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में)

के गर्भ का समापन करना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है*।

मैं यह सूचना देता/देती हूँ कि मैंने निर्दिष्ट स्त्री के, जिसकी अस्पताल/अनुमोदित स्थान के दाखिला रजिस्टर में क्रम संख्यांक है, गर्भ का समापन किया है।

स्थान:

तारीख: रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के हस्ताक्षर

*मद (a) से (e) तक की मदों में विनिर्दिष्ट कारणों में से वह एक लिखिए जो समुचित हो:

- गर्भवती स्त्री के जीवन की रक्षा के लिए।
- गर्भवती स्त्री के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को होने वाली गंभीर क्षति के निवारण के लिए।
- इस दृष्टि से कि इस बात के पर्याप्त जोखिम हैं कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक अपसामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गंभीर रूप से विकलांग हो।
- इसलिए कि गर्भवती स्त्री का यह अभिकथन है कि गर्भ बलात्संग द्वारा हुआ है।
- इसलिए कि यह गर्भ, बच्चों की संख्या सीमित रखने या गर्भ को ठहरने से रोकने के प्रयोजन के लिए, स्त्री अथवा उसके साथी/सहभागी द्वारा प्रयोग में लाई गई किसी गर्भ निरोधक युक्ति या तरीके की विफलता के फलस्वरूप हुआ है।

टिप्पण— यह अवधारण करने के लिए कि क्या उसके गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री के शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचेगी, उस स्त्री की वास्तविक या युक्तियुक्त पूर्व परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए।

स्थान:

तारीख: रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के हस्ताक्षर

प्ररूप 2
[विनियम 4(6) देखिए]

माह एवं वर्ष:

1. राज्य का नाम:

2. अस्पताल/अनुमोदित स्थान का नाम:

3. गर्भ की अस्तित्वावधि: (प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत कुल संख्या दीजिए)

(क) 9 सप्ताहों तक (केवल औपधीय गर्भसमापन में):

(ख) 12 सप्ताहों तक (केवल सर्जिकल विधि द्वारा गर्भ समापन में):

(ग) 12-20 सप्ताहों के बीच:

(घ) 20-24 सप्ताहों के बीच:

(ङ) 24 सप्ताहों के बाद:

4. स्त्री का धर्म: (प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत कुल संख्या दीजिए)

(क) हिन्दू:

(ख) मुसलमान:

(ग) ईसाई:

(घ) अन्य:

5. गर्भ निरोधन की स्वीकृति देते हुए समापन: (प्रत्येक उप-शीर्ष की अंतर्गत कुल संख्या दीजिए)

(क) नसबंदी:

(ख) आईयूसीडी:

(ग) गर्भनिरोधक गोली/गर्भनिरोधक सुई:

(घ) अन्य:

6. समापन के कारण: (प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत कुल संख्या दीजिए)

क. 20 सप्ताहों तक के गर्भ की अवधि में

(क) गर्भवती स्त्री के जीवन को खतरा:

(ख) गर्भवती स्त्री के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति:

(ग) बलात्संग द्वारा हुआ गर्भ:

(घ) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गंभीर रूप से विकलांग हो।

(ङ) किसी गर्भ निरोधक युक्ति अथवा तरीके कि विफलता:

ख. 20-24 सप्ताहों के बीच के गर्भ की अवधि में

(क) यौन हमले या बलात्संग या कौटुम्बिक व्यभिचार के उत्तरजीवी:

(ख) अल्पवय:

(ग) गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन (वैधव्य या विवाह-विच्छेद):

(घ) शारीरिक अक्षमताओं वाली स्त्रियां (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन अभिकथित मानदंडों के अनुसार प्रमुख निश्चयता):

(ङ) मानसिक रूप से रुग्ण स्त्री जिसके अंतर्गत मानसिक मन्दता भी है:

(च) भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान् जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो:

(छ) मानवीय स्थितियों या आपदा या आकस्मिकता की परिस्थितियों में गर्भावस्था वाली स्त्री, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जाए:

ग. 24 सप्ताहों के बाद के गर्भ की अवधि में

(क) भ्रूणीय विकृति का इसके जीवन के साथ असंगत होने का सारवान् जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो:

दाखिला रजिस्टर

[इस रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर इसे नष्ट कर दिया जाए]

[illegible]

Health Department

Notification

The 29th December 2023

No.. 12/F.-Misc-08-93/2023-1791(2)—In exercise of the power conferred by Section 3(2C) of the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act 2021 issued by the Ministry of Law and Justice , Government of India in the Gazette of India on the 25th March 2021, every State Government or Union Territory , as the case may be , shall , by notification in the Official Gazette, constitute a Board to be called a Medical Board for the purposes of this Act to exercise such powers and functions as may be prescribed by rules made under this Act. Accordingly, in supersession of all previous notification and orders so far it relates to the subject in this regard, the Governor is hereby pleased to nominate the following persons as member of the Medical Board for the purpose of Medical Termination of Pregnancy Act.

SI No	Institution	SI No	Name of Medical Board Member , Designation & Specialization
1	Jawahar Lal Nehru Medical College, Bhagalpur	1	Dr. Uday Narayan Singh, Superintendent
		2	Dr. Sachin Kumar Singh, HOD, Radiologist
		3	Dr. Anupama Sinha, HOD, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Rajiv Ranjan, Senior Resident, Paediatrician
2	Darbhanga Medical College & Hospital, Darbhanga	1	Dr. Alka Jha, Superintendent
		2	Dr. Isfaan Ahmad, Assistant Professor, Radiologist
		3	Dr. Pooja Seth, Assistant Professor, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Amit Kumar, Assistant Professor, Paediatrician
3	Anugrah Narayan Magadh Medical College, Gaya	1	Dr. Prof. Shree Prakash Singh, Superintendent
		2	Dr. Dhananjay Kumar, HOD, Radiologist
		3	Dr. Lata Shukla, HOD, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. B. B. Singh, HOD, Paediatrician
4	Sri Krishna Medical College, Muzaffarpur	1	Dr. Deepak Kumar, Superintendent
		2	Dr. Rohit Kumar, Senior Resident, Radiologist
		3	Dr. Preeti Singh, Assistant Professor, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. J. P. Mandal , Assistant Professor, Paediatrician
5	Bhagwan Mahavir Institute of Medical Sciences, Pavapuri (Nalanda)	1	Dr. Arun Kumar Singh, Superintendent
		2	Dr. Niru Singh Janeshwar, Senior Resident, Radiologist
		3	Dr. Nita Sharma, Senior Medical officer, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Dhiraj Kumar, Assistant Professor, Paediatrician
6	Sadar Hospital (Guru Gobind Singh Hospital), Patna	1	Dr. Rajesh Ranjan Chaudhary, Deputy Superintendent
		2	Dr. Kiran Kumari, Medical Officer, Radiologist
		3	Dr. Mehar Afshan Mehndi, Senior Medical Officer, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Uma Shankar Singh, Senior Medical Officer, Paediatrician

Sl No	Institution	Sl No	Name of Medical Board Member , Designation & Specialization
7	Patna Medical College Hospital, Patna	1	Dr. A K Jha, Deputy Superintendent
		2	Dr. Vijay Kumar, Professor, Radiologist
		3	Dr. Geeta Sinha, HOD, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Bhupendra Narayan, HOD, Paediatrician
8	Nalanda Medical College Hospital, Patna	1	Dr. Nutan Narayan, Assistant Professor, Obstetrics & Gynaecology
		2	Dr. Vinay Kumar, Assistant Professor, Paediatrician
		3	Dr. Pranav Kumar, Assistant Professor, Radiologist
		4	Dr. Ritu Kumari, Medical Officer, Obstetrics & Gynaecology
9	Govt Medical College & Hospital , Purnea	1	Dr. Varun Kumar Thakur, Superintendent
		2	Dr. Jan Mehta, Senior Resident, Radiologist
		3	Dr. Richa Jha, Assistant Professor, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Prem Prakash, Assistant Professor, Paediatrician
10	Government Medical College and Hospital, Bettiah	1	Dr. Rajesh Kumar, Deputy Superintendent / Superintendent
		2	Dr. Priyank Barnwal, Senior Resident, Radiologist
		3	Assistant Professor, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Kumar Saurabh, Assistant Professor, Paediatrician
11	Sadar Hospital, Saran	1	Dr. Ratneshwar Prasad Singh, CDO
		2	Dr. Anil Kumar Pandey, Senior Medical Officer , Radiologist
		3	Dr. Akriti Prasad , Senior Medical Officer, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Brajesh Kumar , Senior Medical Officer, Paediatrician
12	Sadar Hospital, Sheikhpura	1	Dr. Ashok Kumar, Civil Surgeon
		2	Dr. Pawan Kumar, Senior Medical Officer , Radiologist
		3	Dr. Sunita Kumari, CDO ,Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Sajid Hussain, District Immunization Officer
		5	Dr. Satish Chandra Bose, Senior Medical Officer, Paediatrician
13	Sadar Hospital, Sheohar	1	Dr. Shailendra Kr. Jha, Civil Surgeon
		2	Dr. Anjana Prasad , Medical Officer , Obstetrics & Gynaecology
		3	Dr. Dilip Kumar, Senior Medical Officer, Paediatrician
		4	Dr. Deepak Kumar, Senior Medical Officer, Radiologist
14	Sadar Hospital , Banka	1	Dr Lakshman Pandit, Deputy Superintendent
		2	Dr. Shailendra Kumar, Medical Officer, Radiologist
		3	Dr. Rashmi Sinha, Senior Medical Officer, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Kumar Amish, Medical Officer, Paediatrician

SI No	Institution	SI No	Name of Medical Board Member , Designation & Specialization
15	Sadar Hospital, Begusarai	1	Dr. B. K. Sharma, Deputy Superintendent
		2	Dr. Punam Kumari , Medical Officer, Radiologist
		3	Dr. Prachi, Senior Medical Officer, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Pravin, Senior Medical Officer, Paediatrician
16	Sadar Hospital , Bhagalpur	1	Dr. Anjana Kumari, Additional Chief Medical Officer
		2	Dr. Piyush Kumar, Senior Medical Officer , Radiologist
		3	Dr. Rashmi Kumari, Senior Medical Officer, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. P. K. Yadav, Senior Medical Officer, Paediatrician
17	Sadar Hospital , Nalanda	1	Dr. Kumkum, Deputy Superintendent
		2	Dr. Gitanjali, Senior Medical Officer, Radiologist
		3	Dr. Anupama Kumari, Senior Medical Officer, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Anjay Kumar, Senior Medical Officer, Paediatrician
		5	Dr. Prasant Kumar, Medical Officer, Anaesthetist
18	Sadar Hospital, Jamui	1	Dr. Arvind, Additional Chief Medical Officer
		2	Dr. Namrata Sinha, Senior Medical Officer, Radiologist
		3	Dr. Shweta Singh, Consultant, Obstetrics & Gynaecology
		4	Dr. Amit Ranjan, Medical Officer, Paediatrician

It is to be mentioned that in districts where Medical Board formation is not possible in Sadar Hospital due to non-availability of either Gynaecologist ,Radiologist or Paediatrician , the institution is tagged with nearest Medical College & Hospital with existing Medical Board , as mentioned below for the purpose of Medical Termination of Pregnancy Act .

SI No.	District / Institution	Reason for Non-formation of Medical Board	Medical College & Hospital with existing Medical Board to take up cases as per MTP Amendment Act & Rules 2021
1	Sadar Hospital, Araria	Radiologist	GMCH , Purnea
2	Sadar Hospital, Arwal	Radiologist	ANMCH , Gaya
3	Sadar Hospital, Aurangabad	Radiologist	ANMCH , Gaya
4	Sadar Hospital, Bhojpur	Radiologist	PMCH , Patna
5	Sadar Hospital, Buxar	Radiologist	PMCH , Patna
6	Sadar Hospital, East Champaran	Radiologist	GMCH , Bettiah
7	Sadar Hospital, Gaya	Radiologist	ANMCH , Gaya
8	Sadar Hospital, Gopalganj	Radiologist	GMCH , Bettiah

Sl No.	District / Institution	Reason for Non-formation of Medical Board	Medical College & Hospital with existing Medical Board to take up cases as per MTP Amendment Act & Rules 2021
9	Sadar Hospital, Jehanabad	Radiologist	ANMCH , Gaya
10	Sadar Hospital, Kaimur	Radiologist	NMCH , Patna
11	Sadar Hospital, Katihar	Radiologist	GMCH, Purnea
12	Sadar Hospital, Khagaria	Radiologist	JLNMCH , Bhagalpur
13	Sadar Hospital, Kishanganj	Radiologist	GMCH, Purnea
14	Sadar Hospital, Lakhisarai	Radiologist	VIMS,Pawapuri (Nalanda)
15	Sadar Hospital, Madhepura	Radiologist	GMCH , Purnea
16	Sadar Hospital, Madhubani	Radiologist	DMCH , Darbhanga
17	Sadar Hospital, Munger	Radiologist	JLNMCH , Bhagalpur
18	Sadar Hospital, Nawada	Radiologist	ANMCH , Gaya
19	Sadar Hospital, Rohtas	Radiologist	NMCH , Patna
20	Sadar Hospital, Saharsa	Radiologist	DMCH , Darbhanga
21	Sadar Hospital, Samastipur	Radiologist	DMCH , Darbhanga
22	Sadar Hospital, Sitamarhi	Radiologist	SKMCH, Muzaffarpur
23	Sadar Hospital, Siwan	Radiologist	SKMCH, Muzaffarpur
24	Sadar Hospital, Supaul	Obstetrics & Gynaecologist	DMCH , Darbhanga
25	Sadar Hospital, Vaishali	Radiologist	NMCH, Patna
26	Sadar Hospital, Muzaffarpur	Radiologist	SKMCH, Muzaffarpur

It is to be mentioned that if any vacancy occurs in the office of a member, it shall be filled by making fresh appointment from existing faculty / Medical Officers by the Facility In-Charge (Civil Surgeons /Suprintendent) of the respective facilities where the MTP Medical boards are formed.

It is to be mentioned that in districts where Medical Board is already formed in Sadar Hospital & Medical College, and the position of either Gynaecologist, Paediatrician or Radiologist falls vacant due transfer/retirement /any other reason, along with there is a considerable delay in fresh appointment to replace the vacant position or the fresh appointment is not made at all for a long time. In such a situation, the Sadar Hospital or Medical College is tagged with nearest Medical College with existing Medical Board, as mentioned below for the purpose of Medical Termination of Pregnancy Act, as per below mentioned details :

Sl No.	District / Name of Institution	Medical College with existing Medical Board to take up cases as per MTP Amendment Act & Rules 2021
1	Jawahar Lal Nehru Medical College, Bhagalpur	Govt Medical College & Hospital, Purnea

Sl No.	District / Name of Institution	Medical College with existing Medical Board to take up cases as per MTP Amendment Act & Rules 2021
2	Darbhanga Medical College & Hospital, Darbhanga	Sri Krishna Medical College, Muzaffarpur
3	Anugrah Narayan Magadh Medical College, Gaya	Patna Medical College Hospital, Patna
4	Sri Krishna Medical College, Muzaffarpur	Darbhanga Medical College & Hospital, Darbhanga
5	Bhagwan Mahavir Institute of Medical Sciences, Pavapuri (Nalanda)	Nalanda Medical College Hospital, Patna
6	Sadar Hospital (Guru Gobind Singh Hospital), Patna	Patna Medical College Hospital, Patna
7	Patna Medical College Hospital, Patna	Nalanda Medical College Hospital, Patna
8	Nalanda Medical College Hospital, Patna	Patna Medical College Hospital, Patna
9	Govt Medical College & Hospital, Purnea	Jawahar Lal Nehru Medical College, Bhagalpur
10	Government Medical College and Hospital, Bettiah	Sri Krishna Medical College, Muzaffarpur
11	Sadar Hospital, Saran	Nalanda Medical College Hospital, Patna
12	Sadar Hospital, Sheikhpura	Bhagwan Mahavir Institute of Medical Sciences, Pavapuri (Nalanda)
13	Sadar Hospital, Sheohar	Sri Krishna Medical College, Muzaffarpur
14	Sadar Hospital , Banka	Jawahar Lal Nehru Medical College, Bhagalpur
15	Sadar Hospital , Begusarai	Patna Medical College Hospital, Patna
16	Sadar Hospital , Bhagalpur	Jawahar Lal Nehru Medical College, Bhagalpur
17	Sadar Hospital , Nalanda	Bhagwan Mahavir Institute of Medical Sciences, Pavapuri (Nalanda)
18	Sadar Hospital, Jamui	Jawahar Lal Nehru Medical College, Bhagalpur

The Powers and Functions of the Medical Board as enshrined in Rule 3A of the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Rules, 2021 are as follows:

Powers – [Under Rule 3A (a)]

- (i) to allow or deny termination of pregnancy beyond twenty-four weeks of gestation period under sub-section(2B) of the said section only after due consideration and ensuring that the procedure would be safe for the woman at the gestation age and whether the foetal malformation has substantial risk of it being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped.
- (ii) co-opt other specialists in the Board and ask for any additional investigations if required, for deciding on the termination of pregnancy

Functions – [Under Rule 3A (b)]

- (i) to examine the woman and her reports, who may approach for medical termination of pregnancy under sub-section (2B) of section 3;

- (ii) provide the opinion of Medical Board in Form D with regard to the termination of pregnancy or rejection of request for termination within three days of receiving the request for medical termination of pregnancy under sub-section (2B) of Section 3
- (iii) to ensure that the termination procedure , when advised by the Medical Board, is carried out with all safety precautions along with appropriate counselling within five days of the receipt of the request for medical for medical termination of pregnancy under sub-section (2B) of section 3

Pursuant to the provisions of the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act. 2021 ,the State Government have been pleased to notify the updated formats, i.e. Form-I, Form-II and Form-III (Copies enclosed) for the documentation of MTP as per the mandate of Law.

This Notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

The proposal has the approval of the competent authority.

BY ORDER,
AANAND PRAKASH,
Officer on Special Duty.

FORM I

RMP Opinion Form

(For gestation age upto twenty weeks)

[See Regulation 3]

I _____
(Name and qualifications of the Registered Medical Practitioner in block letters)

(Full address of the Registered Medical Practitioner)

hereby certify that I am of opinion, formed in good faith, that it is necessary to terminate the pregnancy of _____

(Full name of pregnant woman in block letters)
resident of _____
(Full address of pregnant woman in block letters)

for the reasons given below*.

I hereby give intimation that I terminated the pregnancy of the woman referred to above who bears the Serial No. _____ in the Admission Register of the hospital/approved place.

Place:

Date:

Signature of the Registered Medical Practitioner

*of the reasons specified items (a) to (e) write the one which is appropriate:

- a. in order to save the life of the pregnant women,
- b. in order to prevent grave injury to the physical and mental health of the pregnant woman,
- c. in view of the substantial risk that if the child was born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped,
- d. as the pregnancy is alleged by pregnant woman to have been caused by rape,
- e. as the pregnancy has occurred as a result of failure of any contraceptive device or methods used by a woman or her partner for the purpose of limiting the number of children or preventing pregnancy.

Note: Account may be taken of the pregnant woman's actual or reasonably foreseeable environment in determining whether the continuance of her pregnancy would involve a grave injury to her physical or mental health.

Place:

Date:

Signature of the Registered Medical Practitioner

FORM II
[Refer Regulation 4(5)]

Month & Year:

1. Name of the State:

2. Name of Hospital/approved place:

3. Duration of pregnancy: *(Give total number only under each sub-head)*

- (a) Upto 9 weeks (Medical Methods of Abortion Only):
- (b) Upto 12 weeks (Surgical Methods of Abortion Only):
- (c) Between 12-20 weeks:
- (d) Between 20 -24 weeks:
- (e) Beyond 24 weeks:

4. Religion of woman: *(Give total number under each sub-head)*

- (a) Hindu:
- (b) Muslim:
- (c) Christian:
- (d) Others:

5. Termination with acceptance of contraception: *(Give total number under each sub-head)*

- (a) Sterilization:
- (b) IUCD:
- (c) OCP/Injectable Contraceptive:
- (d) Others:

6. Reasons for termination: *(Give total number under each sub-head)*

A. Up to 20 weeks of gestation

- (a) Danger to the life of the pregnant woman:
- (b) Grave injury to the physical and mental health of the pregnant woman:
- (c) Pregnancy caused by rape:
- (d) Substantial risk that if the child was born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped:
- (e) Failure of any contraceptive device or method:

B. Between 20-24 weeks of gestation

- (a) Survivors of Sexual Assault/Rape/Incest:
- (b) Minors:
- (c) Change of marital status during the ongoing pregnancy (widowhood and divorce):
- (d) Women with physical disabilities [major disability as per criteria laid down under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)]:
- (e) Mentally ill women including mental retardation:
- (f) The foetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped:
- (g) Women with pregnancy in humanitarian settings or disasters or emergency situations as declared by Government:

C. Beyond 24 weeks of gestation

- (a) The foetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped:

Signature of the Officer In-charge with Date

